



स मा चार

राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020

रिक्त तीन स्थानों की पूर्ति के लिए कल होगा मतदान

भोपाल : 18 जून, 2020

मध्यप्रदेश से राज्यसभा के लिये रिक्त हुए तीन स्थानों की पूर्ति के लिए शुक्रवार, 19 जून को विधानसभा भवन, भोपाल स्थित सेन्ट्रल हॉल में मतदान होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव एवं राज्यसभा निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर श्री ए.पी. सिंह के निर्देश अनुसार मतदान से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। मतदान प्रक्रिया से संबद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आज मॉकपोल भी किया गया।

मतदान के दौरान कोविड-19 बीमारी के संक्रमण से निर्वाचकों एवं निर्वाचन प्रक्रिया से संबद्ध अमले के बचाव के मद्देनजर समुचित एहतियात एवं व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। राज्यसभा निर्वाचन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक श्री टी.आर. मीना, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव, केरल द्वारा राज्यसभा मतदान के लिए की गई तैयारियों का अवलोकन भी कर लिया गया है।

विधानसभा के वर्तमान में निर्वाचित 206 सदस्य कल प्रातः 9.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक मतदान करेंगे और तत्पश्चात सायं 5.00 बजे से मतगणना होगी।

कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्यसभा के लिए ऐसे निर्वाचक सदस्य जो कोविड-19 के संक्रमण से ग्रसित हैं तथा राज्य के अस्पताल में भर्ती हैं तथा चिकित्सक यह सुनिश्चित करें कि संबंधित मतदाता बीमारी के कारण मतदान स्थल पर मतदान करने की स्थिति में नहीं है, तो उन्हें आवेदन करने पर पोस्टल-मतपत्र की सुविधा दी जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020 के अंतर्गत रिक्त तीन सीटों के लिये भारतीय जनता पार्टी के श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं श्री सुमेर सिंह सोलंकी तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री दिग्विजय सिंह एवं श्री फूलसिंह बरैया उम्मीदवार हैं।

म.प्र./वि.स./ज.स./2020


(मुकेश मिश्रा)
अवर सचिव